



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र 1931 (श0)  
(सं0 पटना 90) पटना, सोमवार, 30 मार्च 2009

#### खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना  
24 मार्च 2009

जी०एस०आर० 1, दिनांक 30 मार्च 2009 सरकार की राय में गेहूँ की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है ताकि बिहार के कृषक अपने उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समुचित लाभ प्राप्त कर सकें। अधिप्राप्ति का कार्य भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।

2. बिहार सहकारी समितियों अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित सभी प्रकार एवं स्तर की समितियों, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि०, बिस्कोमान तथा नेफेड को भारतीय खाद्य निगम सहित रब्बी विपणन मौसम 2009-10 के अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति करने हेतु अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

3. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र सं० 160(4)/2008 पी०वाई० -I दिनांक - 12.02.2009 के द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2009-10 के अन्तर्गत गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू० 1080/- प्रति क्वीटल निर्धारित किया गया है।

4. रब्बी विपणन मौसम 2009-10 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक- 15.04.09 से 31.07.09 तक के लिए प्रभावी होगा।

(प्र4-र०वि०अधि०-01/2009-926)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
सुरेश कुमार वर्मा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

*The 24th March 2009*

G.S.R. No. 1, dated 30th March 2009—WHEREAS, the Government is of opinion that it is necessary and expedient to set up Wheat procurement centers to ensure the availability and supply of wheat on Minimum support price of the wheat in the interest of farmers of Bihar .

2. All kinds and levels of societies registered under Bihar State Co-operative societies Act 1935 & Bihar Swablambi Co-operative societies Act 1996, Bihar State Food corporation, BISCOAUN, NAFED and Food corporation of India are hereby authorised as procurement agencies for the procurement of wheat under Rabi Marketing season 2009-10.

3. The Minimum support price of the wheat has been fixed up Rs. 1080.00 per Quintal under Rabi Marketing season 2008-09 as per letter No. 160(4)/2008 P.Y dated 12.02.2009 of Ministry of Consumer Affairs, Food & public Distribution (Food & public Distribution Department) Government of India, New Delhi

4. This notification shall effective from 15.04.2009 to 31.07.09 for Rabi Marketing season 2008-09 .

(Pra. 04-R.-Vi.- Adhi. - 01/2009-926)

By the order of Government of Bihar,

SURESH KUMAR VERMA,

*Joint Secretary of the Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 90-571+100-डी0टी0पी0।